

निर्देश—(i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

- (ii) प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न-खण्ड के लिए 1 अंक निर्धारित है।
- (iii) प्रश्न क्रमांक 5 से अन्त तक के सभी प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प दिये गये हैं।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके समुख अंकित हैं।

1. सही विकल्प चुनकर लिखिए—

5

(अ) रेडियन है—

- (i) मूल मात्रक, (ii) पूरक मूल मात्रक, (iii) व्युत्पन्न मात्रक, (iv) इनमें से कोई नहीं।
- (ब) गुरुत्वीय नियतांक किस संकेत से व्यक्त करते हैं ?
(i) g, (ii) M, (iii) G, (iv) K.
- (स) परमाणु की किस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ?
(i) $\frac{1}{2}mv^2$, (ii) $2n^2$, (iii) $2n^3$, (iv) e/m .
- (द) कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं ?
(i) केन्द्रक, (ii) हरितलवक, (iii) माइटोकॉन्ड्रिया, (iv) लाइसोसोम।
- (य) निम्न में कौन ऊपादक है ?
(i) शैवाल, (ii) मेंढक, (iii) मनुष्य, (iv) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर—(अ) (ii), (ब) (iii), (स) (ii), (द) (iii), (य) (i).

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

5

- (i) आधुनिक भारतीय प्रथम संचार उपग्रह का नाम था।
- (ii) पारा धातु सामान्यतः अवस्था में पायी जाती है।
- (iii) इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का गुना होता है।
- (iv) मेण्डलीफ की आवर्त सारणी में उर्ध्वाधर खानों की संख्या होती है।
- (v) स्कर्बी रोग विटामिन की कमी से होता है।

उत्तर—(i) आर्यभट्ट, (ii) द्रव, (iii) $\frac{1}{1837}$, (iv) 9, (v) 'C'।

3. कॉलम 'अ' एवं 'ब' की सही जोड़ी बनाइए—

5

'अ'

'ब'

- | | |
|---|-------------------------|
| (i) हैजा | (a) नाइट्रोजन स्थिरीकरण |
| (ii) राइजोबियम | (b) जीवन रक्षक घोल |
| (iii) ORS | (c) e/m |
| (iv) आवेश तथा द्रव्यमान सम्बन्ध | (d) भोपाल |
| (v) केन्द्रीय कृषि इन्जीनियरिंग संस्थान | (e) संचरणीय रोग |

उत्तर—(i) \rightarrow (e), (ii) \rightarrow (a), (iii) \rightarrow (b), (iv) \rightarrow (c), (v) \rightarrow (d).

4. सत्य/असत्य को छाँटकर लिखिए—

5

- (i) डॉ. अब्दुल पाकिर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं।
- (ii) प्रति सेकण्ड चाल परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है।
- (iii) गतिज ऊर्जा का सूत्र $E_k = mgh$ होता है।
- (iv) प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को s-ब्लॉक तत्व कहते हैं।
- (v) आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है।

उत्तर—(i) सत्य, (ii) असत्य, (iii) असत्य, (iv) सत्य, (v) सत्य।

5. एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए।

4

ब्रायोफाइटा के लक्षण लिखिए।

6. माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं ?

4

अथवा

पौधों में विभज्योतक ऊतक की स्थिति स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों को समझाइए।

7. किन्हीं दो हीनताजन्य रोग के नाम एवं लक्षण लिखिए।

4

अथवा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोई चार कार्य लिखिए।

8. पेट्रोलियम से क्या समझते हैं ? भारत में यह किन-किन स्थानों से निकाला जाता है ?

4

अथवा

पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन स्तम्भ का नामांकित रेखाचित्र बनाइए।

9. ऊर्जा के नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोत से क्या समझते हैं ? उदाहरण सहित समझाइए।

4

अथवा

शृंखलन क्षमता क्या है ? उदाहरण देकर समझाइए।

10. पक्षियों में वायवीय अनुकूलन के चार लक्षण लिखिए।

4

अथवा

ऊर्जा संकट से क्या समझते हैं ? इसके निदान के उपाय लिखिए।

11. पारिस्थितिक तन्त्र में ऊर्जा के प्रवाह को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए।

4

अथवा

वर्मा कम्पोस्टिंग क्या है ? इससे होने वाले लाभ लिखिए।

12. दूरी एवं विस्थापन में अन्तर लिखिए।

5

अथवा

गति के द्वितीय समीकरण $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ की व्युत्पत्ति कीजिए।

13. वैद्युत संयोजी आवन्ध्य क्या है ? MgO का उदाहरण देकर समझाइए।

5

अथवा

निम्न पर टिप्पणी लिखिए—

(i) ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, (ii) प्रतिस्थापन अभिक्रिया।

14. मिश्रित खेती क्या है ? इसके चार लाभ लिखिए।

5

अथवा

श्वेत क्रान्ति का जनक किसे कहते हैं ? संक्षेप में उनका जीवन परिचय एवं योगदान लिखिए।

15. अनुप्रस्थ तरंग को रेखाचित्र बनाकर समझाइए।

6

अथवा

मानव कर्ण की संरचना का नामांकित रेखाचित्र बनाकर समझाइए।

16. उष्माधारिता से क्या समझते हैं ? इसके सूत्र की स्थापना कीजिए।

6

अथवा

क्रिकेटर बाल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे छोंचता है, क्यों ?